



Date: 16.06.2022

To The Manager, BSE Limited PhirozeJeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai- 400001.

To, The Manager- Listing, National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, BandraKurla Complex, Bandra East, Mumbai-400051

Dear Sir/Madam,

Subject: Newspaper advertisement of Postal Ballot Notice pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Dear Sir / Ma'am,

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration Rules), 2014, as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 the Company is providing voting facility (by postal ballot and E-voting) to the Members to cast their votes on all the resolutions set out in the Postal Ballot Notice.

Pursuant to Rule 20(3) (v) of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015, the Company has published an advertisement in "Financial Express" and "Jansatta" newspaper dated 16th June, 2022.

Kindly take above information on your record.

For and on behalf of HARDWYN INDIA LIMITED

For Hardwyn India Limited

Rubaljeet Singh Sayal

Managing Director DIN: 00280624

Enclosed-Newspaper

NOTICE

Dated: 14.06.2022

Smt. Manju Goel, Sh. Naman Jain, C-1/320, Yamuna Vihar, C-10, 3rd Floor, Ramprasth Colony, Near C-2, MCD Primary School, Chander

Nagar, Ghaziabad, Yamuna Vihar, Delhi-110053, U.P.-201011

Notice U/s 173 (3) R/w Rule 3 (3) (a) of the Companies Rule, 2014 for Board of Directors Meeting, to be held on 22.06.2022 at 3.30

You both the directors are informed that Board of Directors' meeting of M/s. Jyotirmay Devlopers Pvt. Ltd., is proposed to be conducted & held on 22.06.2022 at 3.30 PM at Registered Office of the Company as requested by major shareholders. The agenda for the meeting shall be as under:-

"To discuss the termination of MOU dated 20.10.2017, jointly executed by M/s Jyotirmay Developers Pvt. Ltd. and M/s Jyoti Sarvapriya Pvt, Ltd. with M/s. Manju J. Homes India Ltd., to the extend it belong to Khasra No. 1115 and half of 1117 situated at village Morta, Ghaziabad and consequent termination of Consortium Agreement dated 02.11.2017 for non-payment by M/s Manju J. Homes India Ltd., besides other agenda"

Pl. be informed accordingly, if you fail to attend said meeting, the quorum present at meeting would take decision, which would be binding upon you.

Shareholders Abhi Dinesh Sharma

Major Shareholder

HARDWYN INDIA LIMITED

CIN: L74990DL2017PLC324826 Reg off: B-101, Phase-1, Mayapuri, New Delhi 110064 E-mail: accounts1@hardwyn.com Website: www.hardwyn.com Tel No: +91-11-28115352 POSTAL BALLOT NOTICE

Members of the Company are hereby informed that pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013 and other applicable provisions, if any, read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 (Listing regulations), Secretarial Standard-2 on General Meetings (the SS-2) the Company has on Wednesday, June 15, 2022 completed the dispatch of the postal ballot notice, along with the postal ballot form through electronic mailto the members whose email IDs are registered in the records of depository participants as on Friday, June 10, 2022 and through physical mode, along with a postage prepaid self-addressed Business reply envelope to the other members (whose email IDs are not registered) for seeking approval of the shareholders of the Company by postal ballot, including voting by electronic means or, for the following matters:

Description of the Resolution(s) Increase in remuneration payable to Mr. Rubaljeet Singh Sayal, Managing Director and CFO of the Company to Mr. SwaranJeet Singh Saval.

Executive Director of the Company To appoint Ms. Shikha Chawla (DIN 09523645), as an Independent Director. Reappointment/regularization of Ms. Tanya Sayal (DIN: 02821564) as Increase In Authorised Share Capital Of The Company And Consequent Amendment to the Capital Clause of The Memorandum of Association of the Company.

To consider Issue of Bonus shares. The Company has engaged the services of Central Depository Securities Limited (CDSL) for the purpose of providing e-voting facility to all its members. Members are requested to note that the voting through postal ballot shall commence from Saturday, June 18, 2022 at 09.00 AM and ends on Sunday, July 17, 2022 at 5.00 P.M. and for electronic mode voting shall commence from Saturday, June 18, 2022 at 09.00 AM and ends

on Sunday, July 17, 2022 at 5.00 P.M. The Board of Directors has appointed M/s. KMPM & Co., Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot/e-voting process in a fair and transparent manner. Members are requested to note that duly completed and signed postal ballot form should reach the Scrutinizer not later than 05:00 PM on Sunday.

All members may kindly note that voting on the aforesaid resolution done through e-voting/postal ballot forms after the aforesaid date shall not be considered valid.

Any member who does not receive the Postal Ballot form may either send an email toor may apply to the registrar and Share transfer Agent of the Company/Company and obtain a duplicate postal ballot form. The notice of postal ballot has also been placed on the website of the company (i.e. http://www.hardwyn.com/postal_ballot.pdf)

The result of the voting by postal ballot will be announced on or before Tuesday, July 19, 2022, at the registered office of the Company. The result will be displayed at the registered office and on the website of the company and intimate stock exchange on which the shares of the company are listed.

In case you have any queries or issues regarding e-voting, shareholders are requested to contact, Skyline Financial Services Pvt. Ltd. at D-153A, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020, email: info@skylinerta.com

and Other Comprehensive Income (after tax)]

Reserves (excluding revaluation reserve as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year)

Earning Per Share (of Rs.1/- each) (for continuing

and discontinued operations) - Basic and Diluted

Equity Share Capital

Place: Hyderabad

No.

By Order of the Board of Directors Hardwyn India limited **Rubaljeet Singh Sayal Managing Director** DIN: 00280624

वेंक ऑफ़ बड़ोदा Bank of Baroda # Dress I to this

Rajinder Nagar

POSSESSION NOTICE [Rule 8 (1) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002]

Whereas, the undersigned being the Authorised Officer of the Bank of Baroda under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice dated 22.03.2022 calling upon the borrower Mrs. Taruna W/o Mr. Manish Kumar to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 9,48,656.55 (Rs Nine Lakhs Forty Eight Thousand Six Hundred Fifty Six and paise Fifty Five only) +unapplied interest+ legal charges+other charges (w.e.f. 01.03.2022) as on 23.03.2022 within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub section (4) of Section 13 of Act read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002 on this 13th day of June of the year

The mortgagor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Bank of Baroda for an amount of Rs. 9,48,656.55 (Rs Nine Lakhs Forty Eight Thousand Six Hundred Fifty Six and paise Fifty Five only) + unapplied interest + legal charges + other charges (w.e.f. 01.03.2022) as on 23.03.2022 and further interest thereon at the contractual rate plus costs, charges and expenses till date of payment.

The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

All that part and parcel of the property, owned by Mrs Taruna W/o Mr. Manish Kumar & Mr Manish Kumar S/o Mr. Karan Singh situated at entire first floor, without roof rights at Plot No 5/600, Sector 5, Vasundhara, Ghaziabad 201012 admeasuring 35 Sg m registered with sub registrar IV, Ghaziabad, Bounded as : North - Road 6 m Wide, South - Plot No 5/603, East - Plot No 5/599, West - Plot No 5/601

Date: 13-06-2022. Place: Delhi Authorized Officer, Bank of Baroda

> BEFORE THE HON'BLE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL, CHANDIGARH BENCH AT CHANDIGARH CP (CAA) No. 15/Chd/Hry/2022 In the matter of Companies Act, 2013

In the matter of Section(s) 230-232 read with Section 66 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Read with Companies (Compromises, Arrangements And Amalgamations) Rules, 2016

> In the matter of Scheme of Arrangement Between

Indiabulls Asset Management Company Limited (Demerged Company / Petitioner Company 1)

Indiabulls Investment Management Limited (Resulting Company / Petitioner Company 2)

Their Respective Shareholders and Creditors NOTICE OF HEARING OF PETITION

A petition under Section(s) 230-232 read with Section 66 of the Companies Act, 2013 ("Petition") for an order sanctioning the Scheme of Arrangement between Indiabulls Asset Management Company Limited (Demerged Company / Petitioner Company 1) and Indiabulis Investment Management Limited (Resulting Company / Petitione Company 2) and their respective Shareholders & Creditors, was presented by the Petitioner Companies. Vide Order dated 04.03.2022 the Hon'ble National Company Law Tribunal, Chandigarh has been pleased to issue notice in the aforesaid petition which is now fixed for hearing on 06.07.2022. Any person desirous of supporting or opposing the Petition should send to the Petitioner Company 2 or its advocate at the address mentioned below, a notice of his/her intention, signed by him/her or his/her advocates, with his/her name, address, so as to reach the Petitioner Company 2 or its advocate and the NCLT, Chandigarh Bench, Corporate Law Bhawan, Sector 27, Chandigarh, not later than ten days before the next date fixed for hearing of the Petition.

A copy of the Petition will be furnished by the Petitioner Company 2 or its advocate to any person requiring the same on the payment of prescribed charges for the same. Date: 15.06.2022

Where he/she seeks to oppose the petition, the grounds of opposition or copy of his/her

Advocate for the Petitioner Company 2: Petitioner Company 2: Mr. Ajay Siwach Ms. Vedika Gandhi, Advocate Director (DIN-08184120) House No. 62, Sector 2

Indiabulls Investment Chandigarh - 160 001 Management Limited (Formerly Known as Indiabulls Venture Capital Management Company Limited)

affidavit shall be furnished with such notice.

Registered Office Address of Indiabulls Investment Management Limited

(CIN- U65100HR2010PLC095390) Plot No. 422B, Udyog Vihar, Phase IV, Gurugram - 122 016, Haryana.

5,980.65

(3.66)

5,980.65

(2.75)

(Rs. in Lakhs)

5,980.65

(10.29)

Date: 16.06.2022

Place: PUNJAB

5,980.65

(11.52)

केलस्य बैंक Canara Bank

🥌 सिंडिकेट Syndicate

E-Auction Notice

Canara Bank, Regional Office II, 46 E.C. Road, IDA Tower, I Floor, Near Dwarka Store, Dehradun 248001

Auction Notice is hereby given to the effect that Secured Creditor Canara Bank, has taken the possession of the under mentioned vehicle and will be sold by holding Online E-Auction on 04.07.2022 from 12.30 p.m. to 1.30 p.m. [with unlimited extension of 5 minutes duration each till the conclusion of sale]. The Last Date for EMD deposit: 01.07.2022 & document submission: 02.07.2022 - by 4.00 p.m at respective branches.

S.	Borrower/Branch/DP Code	Vehicles details	Liabilities	Reserve Price	Branch/Account	
S. No.	Borrower/Branchibe Code	verncies details	Liabilities	EMD Amount	No. For EMD	
1.	Mr Shiv Prasad Petwal- (Borrower) S/o Mr. Mansha Ram Petwal, (new Tehri Town	TATA MOTORS ZEST XM QJET 90PS ABS BS IV Chasis Number :MAT624026FLK27858	Rs 3,56,993.00 As On 08.09.2019+ Interest w.e.f.10.08.2019+	Rs. 2,00,000/-	Canara Bank, Regional Office II A/c Name - Collection Account) A/c No 209272434 IFSC -CNRB0002166	
	Branch:2166)	Engine Number: 101A20000604459 Having Registration Number: UK09A7333	Expenses and Costs – Recovery w.e.f. 08.09. 2019 (if any).	Rs. 20,000/-	Contact Branch (New Tehri Town Branch- 2166) 09456591015, 09557141285 cb2166@canarabank.com	
2.	Mrs. Seema (Borrower) W/o Mr. Mukesh Kumar (Haridwar Jwalapur I: 5097)	MAHINDRA BOLERO PICK UP CBC 2W D BS IV Chasis Number: MA1ZR2TBKH1A12796	Rs 3,70,931.33 As On 05.05.2021+ Interest w.e.f. 04.05. 2021+	Rs. 2,50,000/-	Canara Bank, Regional Office-II A/c Name- Collection Account A/c No209272434 IFSC - CNRB0005097	
		Engine Number: TBG1M73352 Having Registration Number:UK08 CA 7129	Expenses and Costs – Recovery w.e.f. 05.05.2021 (if any).	Rs. 25,000/-	Contact Branch (Haridwar Jwalapur I – 5097): 9456591083, 9760919641 cb5097@canarabank.com	
3.	Mr. Telu Ram (Borrower) S/o Mr. Phool Singh (Haridwar Jwalapur I: 5097)	Phool Singh (Haridwar Chasis Number: ME4JC715EHT028402 Engine Number: JC71ET1044599		Rs. 25,000/-	Canara Bank, Regional Office-II A/c Name- Collection Account A/c No209272434 IFSC - CNRB0005097	
		Having Registration Number: UK08 AP 3667	+ Expenses and Costs – Recovery w.e.f. 28.07.2019 (if any).	Rs. 2,500/-	Contact Branch (Haridwar Jwalapur I – 5097): 9456591083, 9760919641 cb5097@canarabank.com	

Other terms and conditions:

a. The vehicle/s will be sold in "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" (The possession of the vehicle already lies with the bank). including encumbrances if any (There are no encumbrances to the knowledge of the Bank).

b. Auction / bidding shall be only through "Online Electronic Bidding" through the website www.indianbankseauction.com. Bidders are advised to go through the website for detailed terms before taking part in the e-auction sale proceedings.

c. The vehicle/s can be inspected with prior intimation between 20.06.2022 to 30.06.2022 between 11.00 AM to 5.00 PM. d. The vehicle/s will not be sold below the Reserve Price and the participating bidders may improve their offer further during auction process.

Transfer) to credit of account number as mentioned above, on or before 01.07.2022 by 5.00 PM. f. Intending bidders shall hold a valid digital signature certificate and e-mail address. For details with regard to digital signature please contact the service provider M/S CANBANK COMPUTER SERVICES LTD. Mr Pratap Kanjilal & D D Pakhare. MOB: 9832952602 / 9911293517/

e. EMD shall be deposited by way of DD in favour of Authorized Officer, Canara Bank at respective branches OR through online (RTGS/ NEFT/ Fund

8898418010/080 - 23469665/ 9480691777 email: ccsleauction@gmail.com website address: www.indianbankseauction.com immediately on the same date of payment of the EMD amount the bidders shall approach the said service provider for obtaining digital signature (If not holding a valid digital signature). g. After payment of the EMD amount, the intending bidders should submit a copy of the following documents/details on or before 02.07.2022 up to 5:00

PM, to Canara Bank, respective branches, by hand or by email. i.) Demand Draft/Pay order towards EMD amount. If paid through RTGS/NEFT, Acknowledgement receipt thereof with UTR No. Photocopies of PAN

Card, ID Proof and Address proof. However, successful bidder would have to produce these documents in original to the Bank at the time of making payment of balance amount of 25% of bid amount. ii.) Bidder's Name. Contact No. Address, E Mail Id.

iii.) Bidder's A/c details for online refund of EMD.

h. The intending bidders should register their names at portal www.indianbankseauction.com and get their User ID and password free of cost. Prospective bidder may avail online training on E-auction from the service provider M/S CANBANK COMPUTER SERVICES LTD. Mr Pratap Kaniilal & D D Pakhare. MOB: 9832952602 / 9911293517 / 8898418010 / 080 - 23469665 / 9480691777 email: ccsleauction@gmail.com.

i. EMD deposited by the unsuccessful bidder shall be refunded to them within 2 working days of finalization of sale. The EMD shall not carry any Auction would commence at Reserve Price, as mentioned above. Bidders shall improve their offers in multiplies of Rs. 1, 000/- (The amount can be

decided by the authorised officer depending upon the value of the property with a minimum of Rs. 1,000/- as incremental value). The bidder who submits the highest bid (not below the Reserve price) on closure of 'Online' auction shall be declared as successful bidder. Sale shall be confirmed in favour of the successful bidder, subject to confirmation of the same by the secured creditor.

k. The successful bidder shall deposit 25% of the sale price (inclusive of EMD already paid), immediately on declaring him/her as the successful bidder and the balance within 15 days from the date of confirmation of sale by the secured creditor. If the successful bidder fails to pay the sale price within the period stated above, the deposit made by him shall be forfeited by the Authorised Officer without any notice and property shall forth with be put up for

I, All charges for conveyance, taxes, transfer of ownership and registration charges etc., as applicable shall be borne by the successful bidder only. m. Authorised Officer reserves the right to postpone/cancel or vary the terms and conditions of the e-auction without assigning any reason thereof. In case there are bidders who do not have access to the internet but interested in participating the e-auction, they can approach Canara Bank at respective branches who as a facilitating centre shall make necessary arrangements.

 Bidder has to make due diligence and physical verification of property with regard to title, extent, area dues, etc. No claim subsequent to submission of bid shall be entertained by the bank. p. For further details contact Branch Manager, Canara bank of respective branches OR the service provider M/S CANBANK COMPUTER

SERVICES LTD. Mr Pratap Kanjilal & D D Pakhare. MOB: 9832952602 / 9911293517/ 8898418010/080- 23469665/ 9480691777 email: ccsleauction@gmail.com. q. All disputes are subject to Hardwar jurisdiction only.

Special Instruction/Caution

Bidding in the last minutes/seconds should be avoided by the bidders in their own interest. Neither Canara Bank nor the Service Provider will be responsible for any lapses/failure (Internet failure, Power failure, etc.) on the part of the bidder or vendor in such cases. In order to ward off such contingent situation, bidders are requested to make all the necessary arrangements/alternatives such as back -up, power supply and whatever else required so that they are able to circumvent such situation and are able to participate in the auction successfully.

Date: 16.06.2022 Place: Haridwar Authorised Officer, Canara Bank

IDFC FIRST

IDFC First Bank Limited

(erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC First Bank Limited) CIN: L65110TN2014PLC097792

Registered Office: - KRM Towers, 8th Floor, Harrington Road, Chetpet, Chennai- 600031.

Tel: +91 44 4564 4000 | Fax: +91 44 4564 4022

Notice under Section 13 (2) of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

The following borrowers and co-borrowers availed the below mentioned secured loans from IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC First Bank Limited) The loans of the below-mentioned borrowers and co-borrowers have been secured by the mortgage of their respective properties. As they have failed to adhere to the terms and conditions of the respective loan agreements and had become irregular, their loan were classified as NPA as per the RBI guidelines. Amounts due by them to IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and

presently known as IDFC First Bank Limited) are mentioned as per respective notices issued more particularly described in the following table and further interest on the said amounts shall also be applicable and the same will be charged as per contractual rate with effect from their respective dates.

Sr No.	Loan Account No.	Type of Loan	Name of borrowers and co-borrowers	Section 13 (2) Notice Date	Outstanding amount as per Section 13 (2) Notice	Property Address
1	20753509	LOAN AGAINST PROPERTY	1. MANPREET SINGH SODHI 2. SARABJIT SINGH SODHI	06.06.2022	20,65,875.42/-	ALL THAT PIECE AND PARCEL OF PROPERTY HOUSE NO. 3, MEASURING 158.33 SQ. YDS., SITUATED AT WORK CENTER COLONY, RAJPURA, DISTRICT- PATIALA, AND BOUNDED AS: EAST: PART HOUSE/PLOT NO. 3, WEST: ROAD, NORTH: HOUSE NO. 2, SURINDER SINGH, SOUTH: PART OF HOUSE/ PLOT NO. 4
2	22581428, 29110988 & 33027276	LOAN AGAINST PROPERTY	1. NEW GEN ENTERPRISES (PROP. MOHIT AGGARWAL) 2. MOHIT AGGARWAL 3. PRAN NATH AGGARWAL	06.06.2022	74,92,499.80/-	ALL THAT PIECE AND PARCEL OF PLOT NO. 174-173, MEASURING 200 SQ. YDS., COMPRISED IN THE KHASRA NO. 1475/439, VILLAGE "JODHEWAL", LOCALITY KNOWN AS "NEW SHANTI NAGAR", OPPOSITE STREET NO.1 MAIN, ROAD PULLY WALA, BACKSIDE LONGIA STREET GT ROAD, TEHSIL & DISTRICT-LUDHIANA, AND BOUNDED AS: EAST: NEIGHBOR, 60, WEST: NEIGHBOR, 60 NORTH: STREET, 30, SOUTH: NEIGHBOR, 30
3	25131804 & 32538762	LOAN AGAINST PROPERTY	1. KUBER HOSIERY FACTORY (PROP RITA UPPAL) 2. PARAM DHAAM FABRICATOR (PROP AMAN KUMAR UPPAL) 5. AMAN KUMAR UPPAL 6. RITA UPPAL	06.06.2022	1,26,64,828.59/-	ALL THAT PIECE AND PARCEL OF PLOT NO. 56, NEW NO. 51,51-A KHASRA NO. 1593 & 1598, SARABHA NAGAR EXT. PHASE NO. 1, PAKHOWAL ROAD VILLAGE DAAD, LUDHIANA, LUDHIANA, PUNJAB 141001, ADMEASURING 290 SQYD, BOUNDED AS: EAST: NEIGHBOUR (OPEN PLOT) 75'-0" WEST: ROAD 30' WIDE 75'-0" NORTH: NEIGHBOUR (OPEN PLOT) 34'-8" SOUTH: ROAD 24' WIDE 34'-8"
4	29175088 29010869	LOAN AGAINST PROPERTY	1. V-LINE FASHION	04.06.2022	5,68,24,706.75/-	PROPERTY-1: - ITEM-2: -ALL THAT PIECE AND PARCEL OF PLOT NO. 50 MEASURING 220 SQ. YDS., COMPRISED IN KHASRA NO. 3390/267-266, SITUATED IN THE VILLAGE "TARAF SAIDAN",

_			Control of the Contro			
	29175088 29010869 33074393 & 33074268	PROPERTY	1. V-LINE FASHION (PROP. NARINDER KUMAR) 2. ANIL KUMAR GUPTA 3. ARUN KUMAR 4. NARINDER KUMAR 5. RAJNI GUPTA 6. RAJNI KNITWEAR (PROP. RAJNI GUPTA) 7. VICKEY HOSIERY (PROP. ARUN KUMAR)	04.06,2022	5,68,24,706.75/-	PROPERTY-1:- ITEM-2: -ALL THAT PIECE AND PARCEL OF PLOT NO. 50 MEASURING 220 SQ. YDS., COMPRISED IN KHASRA NO. 3390/267-266, SITUATED IN THE VILLAGE "TARAF SAIDAN", LOCALITY KNOWN AS "KIRPAL NAGAR" TEHSIL & DISTT, LUDHIANA, PERAND BOUNDED AS: EAST: NEIGHBOUR, WEST: NEIGHBOUR NORTH: NEIGHBOUR, SOUTH: STREET 20 FT, WIDE ITEM-2: - ALL THAT PIECE AND PARCEL OF PLOT NO. 51 MEASURING 220 SQ. YDS., COMPRISED IN KHASRA NO. 255/2-256/2-257/3-258/2-260/2-261/6-3387/262/2-3388/262/2- 263/3-268/4-259/3, SITUATED IN THE VILLAGE "TARAF SAIDAN", LOCALITY KNOWN AS "KIRPAL NAGAR" TEHSIL & DISTT, LUDHIANA, AND BOUNDED AS: EAST: STREET 20 FT WIDE, WEST: NEIGHBOUR, NORTH: NEIGHBOUR, SOUTH: STREET 20 FT, WIDE ITEM-3: - ALL THAT PIECE AND PARCEL OF A PLOT MEASURING 100 SQ. YDS., COMPRISED IN KHASRA NO. 256/3-257/1-255/1-256/1-261/3-261/1, SUITATED IN THE VILLAGE "TARAF SAIDAN", LOCALITY KNOWN AS "KIRPAL NAGAR" TEHSIL & DISTT. LUDHIANA, AND BOUNDED AS: EAST: NEIGHBOUR, WEST: STREET 20 FT, WIDE NORTH: NEIGHBOUR, SOUTH: NEIGHBOUR PROPERTY-2: - ITEM-1: -ALL THAT PIECE AND PARCEL OF PLOT NO. 35-A MEASURING 222.22 SQ. YDS., COMPRISED IN KHASRA NO. 19//2-19//5, SITUATED IN VILLAGE "JAMALPURAWANA" "PREET NAGAR", KAKKA ROAD, NEAR MAKKA DYING, JAIL ROAD, TEH. & DISTT. LUDHIANA, AND BOUNDED AS: EAST: NEIGHBOURWEST: STREET 30 FT, WIDE NORTH: NEIGHBOURSOUTH: NEIGHBOUR ITEM-2: - ALL THAT PIECE AND PARCEL OF PLOT NO. 35 MEASURING 444.44 SQ. YDS., COMPRISED IN KHASRA NO. 19//6, SITUATED IN VILLAGE "JAMALPURAWANA" "PREET NAGAR", KAKKA ROAD, NEAR MAKKA DYING, JAIL ROAD, TEH. & DISTT. LUDHIANA, AND BOUNDED AS: EAST: NEIGHBOUR WEST: STREET 30 FT. WIDE NORTH: NEIGHBOUR, NEAR MAKKA DYING, JAIL ROAD, TEH. & DISTT. LUDHIANA, AND BOUNDED AS: EAST: NEIGHBOUR, WEST: STREET 30 FT. WIDE NORTH: NEIGHBOUR, SOUTH: NEIGHBOUR ITEM-3: - ALL THAT PIECE AND PARCEL OF PLOT NO. 36 MEASURING 333 SQ.YDS, COMPRISED IN KHASRA NO. 19//2, 19//3, SITUATED IN VILLAGE "JAMALPURAWANA" "PREET NAGAR", KAKKA ROAD, NEAR MAKKA DYING, JAIL ROAD, TEH. & DISTT.

You are hereby called upon to pay the amounts to IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC First Bank Limited) as per the details shown in the above table with contracted rate of interest thereupon from their respective dates and other costs, charges etc. within 60 days from the date of this publication, failing which the undersigned shall be constrained to initiate proceedings, under Section 13 (4) and section 14 of the SARFAESI Act, against the mortgaged properties mentioned hereinabove to realize the amount due to IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC First Bank Limited). Further you are prohibited under Section 13 (13) of the said Act from transferring the said secured assets either by way of sale/lease or otherwise.

New Delhi

IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile Capital First Limited, amalgamated with

IDFC Bank Limited and presently known as IDFC First Bank Limited)

Authorized Officer

LUDHIANA, AND BOUNDED AS: EAST: NEIGHBOURWEST: STREET 30 FT. WIDE

UDHIANA, AND BOUNDED AS: EAST: NEIGHBOURWEST: NEIGHBOUR

ALL THAT PIECE AND PARCEL OF PLOT NO. 36-A MEASURING 333.33 SQ. YDS. COMPRISED IN KHASRA NO. 19//2-19//3, SITUATED IN VILLAGE "JAMALPURAWANA"

'PREET NAGAR', KAKKA ROAD, NEAR MAKKA DYING, JAIL ROAD, TEH. & DISTT,

NORTH: NEIGHBOURSOUTH: STREET 40 FT. WIDE

NORTH: NEIGHBOURSOUTH: STREET 40 FT. WIDE

Nagarjuna Fertilizers and Chemicals Limited Nagarjuna Hills, Hyderabad - 500 082. Website: www.nagarjunafertilizers.com CIN: L24129TG2006PLC076238 Extract of the Audited Standalone and Consolidated Financial Results

for the Quarter / Year Ended March 31, 2022

Standalone Consolidated For the Quarter Quarter Year Year Quarter Quarter Year Year **Particulars** ended ended ended ended ended ended ended ended 31-3-2022 31-3-2021 31-3-2022 31-3-2021 31-3-2022 31-3-2021 31-3-2022 31-3-2021 (Audited) (Audited) (Audited) (Audited) (Audited) (Audited) (Audited) Audited 2,72,265.16 80,382.59 41,085.70 1,59,925.35 80,384.00 41,085.7 2,72,266.57 1,59,926.08 Total income from operations (net) (14,681.55) (19,950.29) (61,020.15) (51,226.95) (14,779.33) (19,950.29) (61,117.93) (51,227.15) Net Profit / (Loss) for the period (before Tax. Exceptional and/or Extraordinary items) (14,681.55) (19,950.29) (70,063.79) (65,308.95) (16,593.19) (19,950.29) (71,975.43) (65,309.15) Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after tax (14,556.78) [(21,899.55)] (66,990.62) [(61,533.09)] (16,468.42) [(21,899.55)] (68,902.26) [(61,533.29) (after Exceptional and/or Extraordinary items) (14,469.89) (21,958.69) (66,903.73) (61,592.23) (16,381.53) (21,958.69) (68,815.37) (61,592.43) Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax)

5,980.65

(11.20)

5,980.65

(10.29)

Note: The above is an extract of the detailed format of the Audited Financial Results for the Quarter / Year ended March 31,2022 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the said Audited Financial Results is available on the Stock Exchange websites. (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on Company's website: www.nagarjunafertilizers.com. K. Rahul Raju

5,980.65

(3.66)

5,980.65

(2.43)

Managing Director Date: June 14, 2022 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD.

BRANCH: SCO: 153-155, SECTOR 8-C, MADHYA MARG, CHANDIGARH CIN L70100MH1977PLC019916 WEBSITE: www.hdfc.com TEL.: 0172-6761000

DEMAND NOTICE Under Section 13 (2) of the Securitisation And Reconstruction Of Financial Assets And Enforcement Of Security Interest Act, 2002 (Act) read with Rule

3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. Whereas the undersigned being the Authorised Officer of Housing Development Finance Corporation Ltd. (HDFC Limited) under Securitisation And Reconstruction Of Financial Assets And Enforcement Of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued Demand Notices under Section 13 (2) of the said Act, calling upon the

Borrower(s) listed hereunder, to pay the amounts mentioned in the respective Demand Notice/s, within 60 days from the date of the respective Notice/s, as per details given below. The undersigned are in the process of having these Notices to be pasted on the premises of the last known respective addresses of the said Borrower(s). Copies of the said Notices are available with the undersigned, and the said Borrower(s) may, if they so desire, collect the respective copy from the undersigned on any working day during normal office hours. In connection with the above, Notice is hereby given, once again, to the said Borrower(s) to pay to HDFC Limited, within 60 days from the date of

publication of this Notice, the amounts indicated hereinbelow in their respective names, together with further interest @ 18% p.a. as detailed in the said Demand Notices from the respective dates mentioned below in column (c) till the date of payment and / or realisation, read with the loan agreement and other documents/writings, if any, executed by the said Borrower(s). As security for due repayment of the loan, the following Secured Asset(s) have been mortgaged to HDFC Limited by the said Borrower (s) respectively.

Borrower(s) attention is invited to the provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured asset/s.

St. No.	Name of Borrower(s)	Total Outstanding Dues	Date of Demand Notice	Description of Secured Asset(s) / Immovable Property (ies)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
	Mr.Sukhpal Singh, S/oMr.Radhey Shyam (Borrower) And Mrs.Sumitra, W/oMr. Sh. RadheyShyam (Co-Borrower), Both R/oHouse No 781, Village PatniPratapur, Kairana, Muzaffarnagar, Kairana, UP-247773	30,82,661/-	Sarsai (total lar	House No. 17, or S. No. B-015/05475, admeasuring 2 Marlas 5 ½ (16'x44'= 78.22 Sq. Yds. or 65 sq. mts.), being 23 ½/3834 share of nd measuring 21 Kanal 6 Marlas, comprised in Khewat No. 132, ni No. 135, Khasra No. 50//21/2(6-4),53//1(7-7),9/2(1-15),10/1
	(6-0), Kitte 4, situated at Gurdev Nagar, Village Bhabhat, Sub Tehsil 2012-13 and construction thereon present and future registered in			

bearing Vasika No. 13/727. The said property is bounded as under:East: Common Passage; West: Common Passage; North:House No. 18 South: House No. 16 *with further interest @ 18% p.a. as applicable, incidental expenses, costs, charges etc incurred till the date of payment and / or realization.

If the said Borrowers shall fail to make payment to HDFCLimited as aforesaid, then HDFC Limited shall proceed against the above Secured Asset(s).

Immovable Property (ies) under Section 13 (4) of the said Act and the applicable Rules entirely at the risk of the said Borrower(s) as to the costs and consequences The said Borrower (s) are prohibited under the said Act to transfer the aforesaid Secured Asset (s) / Immovable Property (ies), whether by way of sale, lease or otherwise without the prior written consent of HDFC Limited. Any person who contravenes or abets contravention of the provisions of the Act or

Rules made thereunder shall be liable for imprisonment and/or penalty as provided under the Act. For Housing Development Finance Corporation Ltd. Place: Chandigarh

Date: 17.06.2022 **Authorised Officer**

Regd. Office: Ramon House, H.T. Parekh Marg, 169, Backbay Reclamation, Churchgate, Mumbai - 400 020. financialexp.epap.in

कंपनी अधिनियम, 2013 कंपनी अधिनियम 2013 की पनी (निगमन) नियम 2014 के नियम 41 के मामले में

मैसर्स मंगली इंटरप्राइजेज लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालयः 4, सेफवे हाउस डी-ब्लाक, सैंटरल मार्केट, प्रशात विहार, नई दिल्ली-1100085 में स्थित है के मामलें में

सुचना एतहारा आम जनता को यह सुचना वी जाती है कि कंपनी को ऐसे संपरिवर्तन का अधिकार देने के लिए तारीख 6 कुन, 2022 को आयोजित विशेष आम अधिवेशन में पारित विशेष संकल्प को शतों के अनुसार प्रावृद्धित लिपिटेड कंपनी में संपरिवर्तन करने की हो के अनुसार प्रावृद्धित लिपिटेड कंपनी में संपरिवर्तन करने की इच्छा रखने वाली कंपनी ने पूर्विक्त नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की छारा 14 के अधीन, आवेदत किया है। धारा 14 के अधीन आवेदन किया है।

कंपनी के प्रस्तावित परिवर्तन /स्थिति के कारण यदि किसी व्यक्ति के हित पर प्रभाव पड़ने की संभावना है तो वह व्यक्ति इस सुचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह दिन के ज्ञानत इस सुचना के प्रकाशन का तातिज्ञ से जावह विन के भीतर निम्नलिखित पते पर आवेदन कंपनी के रिजस्ट्रीकृत कार्यालय को भेजी गई प्रति सहित किसी हलफनामें द्वारा अपनी आपत्ति भेज सकता है या किसी माध्यम से भिजवा अपना आपात भेज सकता है या किसा माध्यम स भिजवा सकता है या रजिस्ट्रीकृत पोस्ट द्वारा भेज सकता है जिसमें संबंधित क्षेत्रीय निदशक उत्तरी क्षेत्रपीठ, बी-2 विंग, 2 फलोर, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. कॉमप्लेक्स. -110003 को उसके हित और आपत्ति के आधार की प्रकृति का उल्लेख किया जायेगा।

आनेदक कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय-4, सेफुवे हाउस, डी-ब्लाक, सैंटरल मार्केट, प्रशांत विहार,

आवदेक के लिए और उनकी ओर से मंगली इंटरप्राइजेज लिमिटेड हस्ता./-शालिनी गोयल (निर्देशक) DIN: 02006940 हाउस नं. 119, दिपाली, पीतमपुरा, सरस्वती विहार, दिल्ली–110034 स्थानः दिल्ली तारीखः 15.06.2022



हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड ÇIN: U74899DL1991PLC046774 पंजीकत कार्यालय: 34. सामदायिक केंद्र. होन: 011-49487150 फैक्स: 011-4948715 ল: litigation@herofincorp.com वेबसाइट: www.herofincorp.com शुद्धिपत्र

स समाचार पत्र में 15/06/2022 को प्रकाशित "**ई**-**नीलामी बिकी सचना"** जिसमे "कर्जदार का नार कॉस्मिक मोटर्से इंडिया प्राइवेट लिमिटेड" है के संदर्भ में. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अंतिम संस्करण के मुद्रण के समय अख़बार में एक टाइपोग्राफ़िकल प्रिंटिंग त्रुटि अनजाने में हुई है जिसमें विज्ञापन का शीर्षक "परिशिष्ट-IV-ए" [नियम 8(1) के प्रावधान देखें। अचल संपत्ति की बिक्री हेतु विकय सचना" के बजाय "**परिशिष्ठ-IV-ए" ।निय**म 8(6) के प्रावधान देखें। अचल संपत्ति की बिक्री हेतु विक्रय सूचना" लिखा जाना चाहिए था और विज्ञापन के अंत में "तिथि: 16.06.2022" के बजाय **"तिथि : 15.06.2022**" लिखी जानी चाहिए थी। इस शुद्धिपत्र को उक्त "ई-नीलामी बिक्री सूचना" की निरंतरता में और उसके संयोजन में पढ़ा जान चाहिए और अन्य सभी मदें अपरिवर्तित रहेंगीं।

हस्ता/-अधिकृत अधिकारी हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड दिनांक: 16.06.2022 स्थान : दिल्ली एनसीआर, नागपुर

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

सार्वजनिक सूचना

... १ पोजटेक इंजीनियरिंग पाइवेट लिमिटेड बसरा नंबर 349/350, रमन्ना हाउस, ग्राम – शाहबाद, मोहम्मदपुर, दिल्ली – 110061

2. ब्रिज मोहन पांडे, 248 डीडीए. पॉकेट 1. द्वारका. दिल्ली–110077

3. सरोज पांडे, 248 डीडीए, पॉकेट 1, द्वारका, दिल्ली — 110077

संद.: 2022 का एपी 286 यूग्रो कैपिटल लिमिटेड

प्रोजटेक इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड हमारे ग्राहकः उग्रो कैपिटल लिमिटेड

ग्रह उपरोक्त पतों को नोटिस प्रदान करने के लिए है कि उपरोक्त धारा 9 आवेदन आपके खिलाप 26.88.697 की राशि का दावा करने के लिए दायर किया गया है जो आपके द्वारा देय बका एवं देय है। याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित आदेशों को प्रदान करने के लिए प्रार्थना की है: क) प्रतिवादियों को कारण बताने के लिए निर्देशित किया जाता है कि उन्होंने रु. 26,88,697/— (छब्बीर नाख अठ्ठासी हजार छह सौ सत्तानबे रुपये मात्र) तक की राशि का प्रतिभूति क्यों निष्पादिः

ख) यदि इस मामलें में प्रतिवादी कारण व्यक्त करने में विफल रहता है या अपर्याप्त कार देखाता है, तो प्रतिवादियों को रु. 26,88,697/— (छब्बीस लाख अठठासी हजार छह सौ सत्तान पये मात्र) तक की राशि की प्रतिभूति के लिए ऐसे समय के भीतर और ऐसी शर्तों प जिसे यह माननीय न्यायालय उचित और उपयुक्त समझे, हेतु निर्देशित किया जाना चाहिए। (ग) यदि प्रतिवादी माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित समय के भीतर और ऐसी शर्तों पर जि पुर गुरु माननीय न्यायालय उचित और उपयुक्त समझे हेतु रु. 26.88.697/— (छब्बीस लाख अठुठार्स हजार छह सौ सत्तानबे रुपये मात्र) तक की राशि की प्रतिभूति को निष्पादित करने में असमध् तो बैंक खाते और संपत्तियां अटैच की जाएं।

और न्यायालय द्वारा उचित और उपयुक्त समझे जाने वाले अन्य आदेश दें। कुपया ध्यान दें कि उक्त मामला 5 जुलाई, 2022 को वापस करने योग्य बना दिया गया है।

सिन्हा एंड कंपनी, एडवोकेट्स 5, किरण शंकर रॉय रोड, कोलकाता- 700001, दूरभाष: + 9133-2210-1617/1625

फार्म नं. आईएनसी-26 [कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में] केन्द्रीय सरकार-क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली

के समक्ष यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 की घारा 13(4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप—नियम (5) के खंड (एं) के मामले

और अमिशि बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (यू45201डीएल2005पीटीसी143529) जिसका पंजीकृत कार्यालय 1–ई, झण्डेवालान एक्सटेंशन, नाज सिनेमा कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली –110055 में है के मामले में

आवेदक / याचिकाकर्ता कंपनी

एतद्द्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेतु पुष्टिकरण के लिए केंद्र सरकार (कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 तहत क्षेत्रीय नेदेशक को प्रत्यायोजित अधिकार) को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, यह विशेष प्रस्ताव एक असाधारण आम बैठक में शेयर धारकों द्वारा कम्पनी को सक्षम करने हेतु 25 मई, 2022 को आयोजित बैठक में पंजीकृत कार्यालय को **"दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र"** से **"हरियाणा राज्य"** में बदलने हेतु पारित किया गया।

यदि किसी व्यक्ति का हित कम्पनी में इस पंजीकत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रमावित हो, तो वे इसका कारण देते हुए आपत्ति हलफनामा में उल्लेख करते हुए जिसमें उनके हित ∕ विरोध के आधार हों, एमसीए–21 पोर्ट्ल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत फार्म दर्ज करें या क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी—2 विंग दूसरा तल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली—110003, (ई—मेल आईडीः <u>rd.north@mca.gov.in</u>) पर मेल करें तथा इसकी एक आवेदक / याचिकाकर्ती कम्पनी को इसके पंजीकृत कार्यालय में उपरोक्त पते पर रजिस्ट्री द्वारा इस सूचना छपने के 14 (चौदह) दिनों के भीतर भेजी जानी चाहिए।

कृते अमिशि बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड

15 जून, 2022 नई दिल्ली

अनिल कुमार निदेशक डीआईएनः 07349564

पंजीकृत एवं कॉरपोरेट कार्यालय : येस बैंक हाउस, ऑफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे संताक्रुज (ईस्ट), मुम्बई 400055, YES BANK ई मेल: communications@yesbank.in, वेबसाईट: www.yesbank.in

CIN: L65190MH2003PLC143249 (नियम 8(1)) कब्जे की सूचना

REF No. YBL/ENF/DEL/SP/RN/2022-2023/268

।बिक, अधोहस्ताक्षरकर्त्ता येस बैंक लिमिटेड का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों क प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का संख्याक 54 (अधिनियम) की धारा 13(12) और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (नियम) का संपठित नियम 3 . हे तहत् प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में एक मांग सूचना **दिनांक 25 मार्च, 2022** को निर्गमित की जिसमें मांग करते हुए ऋणी **मैंसर्स निटमैक इंडिया लिमिटेड (ऋणी) जरिए निदेशक (2) श्री** मनीष (निदेशक और जमानतदार) (3)श्रीमती अनीता (बंधक, निदेशक और जमानतदार) (4) **श्री तुला बोसक (निदेशक और जमानतदार)** को सूचना—पत्र की प्राप्ति दिनांक से 60 दिनों व ीतर रूपये 3.19.62.395 /- (रूपये तीन करोड़, उन्नीस लाख बासठ हजार तीन सौ पिच्यानवे मात्र) दिनांक 28 फरवरी, 2022 तक तथा दिनांक 01 मार्च, 2022 से प्रभावी आगे के व्याज तथा अन्य खर्चों के साथ की राशि को लौटाने के लिये कहा गया था।

ऋणी तथा जमानतदारों द्वारा वह राशि लौटाने में विफल होने पर ऋणी, जमानतदारों और बंधकक तथा जनसामान्य को को एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) सपठित उक्त नियमों के नियम 8 के तहत् उसको प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में, एतस्मि नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा **दिनांक 10 जून 2022** को ग्रहण कर लिया हैं।

ऋणी, जमानतदारों तथा बंधककर्ता को विशिष्टतया और सर्वसाधारण को सामान्यतया एतद् द्वारा संपति के साथ व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और संपति के साथ कोई व्यवहार येस बैंक लेमिटेड के रूपये 3,19,62,395/— (रूपये तीन करोड़, उन्नीस लाख बासठ हजार तीन सौ **पिच्यानवे मात्र) दिनांक 28 फरवरी, 2022** तक व आगे के ब्याज एवं लागतों के अध्यधीन होगा। ऋणियों का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धार 13 की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

ı	अचल सम्पाताया का विवरण						
क. सं.	बन्धक सम्पत्ति का विवरण	बंधककर्ता					
1.	सम्पूर्ण तृतीय तल एवं बिना छत अधिकारों के फ्रीहॉल्ड निर्मित सम्पत्ति नं. 106 ब्लॉक डी, सेक्टर-8, द्वारका आवासीय स्कीम, द्वारका, नई दिल्ली में स्थित। क्षेत्रफल 175 वर्गमीटर।						
2.	सम्पूर्ण द्वितीय तल एवं बिना छत अधिकारों के, फ्रीहॉल्ड निर्मित सम्पत्ति का हिस्सा संख्या ए- 128, जो सेक्टर 19, द्वारका आवासीय स्कीम, द्वारका, नई दिल्ली में स्थित। क्षेत्रफल 175 वर्गमीटर।						

दिनांकः 10.06.2022

हस्ताक्षर/- वास्ते येस बैंक लिमिटे रोहित निझावन (वरिष्ठ उपाध्यक्ष) प्राधिकृत अधिकारी, उत्तरी क्षेत्रीय कॉर्पोरेट कार्यालय:-येस बैंक लिमिटेड, स्थानः नई दिल्ली लेवल-4, 5वां और 14वां (ए) मैक्स टावर्स, सेक्टर 16 बी, नोएडा (यूपी), 201301, इण्डिया



शाखा- मैनपुरी

(अचल सम्पत्तियों का कब्जा नोटिस) (अचल सम्पत्तियों हेतु धारा 8(1) के अन्तर्गत) यघपि वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण व पुर्नसरचना तथा प्रतिभूति ब्याज का प्रभावीकरण अधिनियम् 2002 के तथ प्रतिभूति ब्याज (प्रभावीकरण) नियम 2002 के नियम 8 के साथ पिठत बारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने विभिन्न बकायेदार ऋणियों एवं गारन्टरों को नोटिस में वर्णित राशि, नोटिस प्राप्ति के 60 (साठ) के अन्दर अदा करने हेतु मांग नोटिस जारी की थी। ऋणियों एवं गारन्टरों के द्वारा इस राशि की अदायगी में विफल रहने पर एतदृद्वारा आम जनता को एवं ऋणियों एवं गारन्टरों को विशेष रूप से सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने नीचे वर्णित सम्पत्ति का आधिपत्य उपरोक्त अधिनियम की धारा 13(4) एवं नियमों के उपनियम 8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्नलिखित सम्पत्तियों का कब्जा उनके सम्मुख अंकित तिथि को कर लिया है। उधारकर्ताओं का ध्यान सुरक्षित परिसम्पत्तियों को मुक्त कराने में उपलब्ध समय के संबन्ध में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकर्षित किया जाता है। एतदद्वारा ऋणियों / गारन्टरों का विशेषतः और जन साधारण को सामान्यतः सूचित किया जाता है कि उक्त सम्पत्ति का प्रतिकात्मक अधिग्रहण कर लिया गया है अतः इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई भी सौदा / व्यवहार बैंक के अतिरिक्त अन्य किसी से न करें एवं ऐसा कोई भी सौदा / व्यवहार बैंक ऑफ बड़ौदा को देय राशि व तत्सम्बन्धित ब्याज हेतु जैसा कि नीचे खाते के सम्मुख उल्लेखित किया गया है,

के अध्याधीन होगा।				
खातेदारों एवं गारन्टरों का नाम	बंधक सम्पत्ति का विवरण	मांग नोटिस दिनांक	नोटिस	मांग नोटिस वे अनुसार बकाय राशि
मेडीकल एवं श्री प्रशांत भागवत दयाल शाक्य	सम्पत्ति के सभी भाग एवं खण्ड फ्लैट नंo/ प्लॉट नंo/मकान नं. 326 सर्वे नई बस्ती देवपुरा मैनपुरी पंजीकृत उपजिला मैनपुरी एवं जिला मैनपुरी। चौहद्दी: पूर्वः श्री रामवीर सिंह का मकान, पश्चिमः श्रीमती सुधा कुशवाह का मकान, उत्तर— श्री जीवन लाल की भूमि, दक्षिणः रोड।	29.03.2022	14.06.2022	रू0 25,31,098.00 दि.13.06.2022 तक + ब्याज एवं अन्य खर्च
दिनांकः 16.06.2022	स्थानः मैनपुरी	प्राधि	कृत	अधिकारी

APRIGLOBAL कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड

पंजीकृत एवं निगमित कार्यालयः 502, टॉवर--ए, पेनिन्सुला बिजनेस पार्क, सेनापति बापत मार्ग, लोवर परेल, मुंबई–400013 परिमंडल कार्यालयः कप्री क्लोबल कैपिटल लिमिटेड, द्वितीय तल, 3बी पूसा रोड, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली–110005

परिशिष्ट IV आधिपत्य सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड (सीजीसीएल) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिव एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पिट अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा यहां इसमें निम्न वर्णि ऋणकर्ता(ओं) / गारंटर(रों) को मांग सूचना(एं) निर्गत की थी, जिसमें सूचना में आंकित राशि का उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों व अंदर प्रतिभुगतान करने की कहा गया था। चूंकि ऋणकर्ता निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वा हणकर्ता(ऑ)/ गारंटर(रॉ) को तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का प्रतिभू हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप—धारा (4) के अंतर्गत उनको प्रदत्त शक्तियों व प्रयोगांतर्गत आधिपत्य ग्रहण कर लिया है। ऋणकर्ता का ध्यानाकर्षण प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम वं धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है। ऋणकर्ता को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतदृद्वारा सामान रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन–देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन जो होगा, वह यहां इसमें निम्न अंकितानुसार एक राशि तथा इस राशि पर ब्याज हेतु सीजीसीएल के प्रभाराधीन होगा।

क्र. सं.	ऋणकर्ता(ऑ) / गारंटर(रॉ) के नाम	प्रतिमूत परिसंपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण	मांग सूचना तिथि एवं राशि	आधिपत्य की तिथि
1.	(ऋण खाता संख्या LNMEPAN000035318 हमारी पानीपत शाखा की) विक्रम राठी (ऋणकर्ता) सुरेश कुमार, सोनिया (सह—ऋणकर्ता)	मकान / संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जिनका क्षेत्राधिमापन 364 वर्ग गज अर्थात् 12 मारला है, जो 7 कनाल 19 मारला में से 12/159वां अंश है, जो खेवट संख्या 179. खतौनी संख्या 228, खसरा संख्या 283 (7−19) से समाविष्ट हैं, जो ग्राम सहनपुर, तहसील सफीदों, जनपद जींद, हिरेयाणा−126112 में स्थित हैं, जो उस पर वर्तमान एवं भविष्य दोनों कालखंडों में होनेवाले निर्माण के साथ हैं और जो इस प्रकार परिसीमित हैं: पूर्व− 58 फुट 6 इंच गली, परिष्य मिन 62 फुट मजन श्री बिजेरर पुत्र श्री बारोराम का, उत्तरप− 42 फुट 6 इंच + 10 फुट मुख्य द्वार गली आम, दक्षिण− 54 फुट 3 इंच मकान श्री कृष्णा पुत्र श्री छत्तर सिंह का	रु. 22,38,744 / —	10.06.2022
स्थ	ानः जींद, दिनांकः 16.06.2022	हस्ता./—(प्राधिकृत अधिकारी) कृते कैप्री ग्लोबल	कैपिटल लिमिटे	ड (सीजीसीएल)

पंजाब नैश्वाल बैंक U punjab national bank

शेयर विभाग, बोर्ड और समन्वय प्रभाग, प्लॉट संख्या. 4, द्वारका, सेक्टर–10, नई दिल्ली—110075, ई—मेल hosd@pnb.co.in, फोन नं. : 011—28044857

सार्वजनिक सूचना एतद्दवारा सूचित किया जाता है कि नीचे उल्लिखित बैंक का शेयर प्रमाण पत्र खोने / गुम रे चोरी होने के रूप में रिपोर्ट किया गया है और इसके पंजीकृत

धारक / दावेदार ने डुप्लिकेट शेयर प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अनुरोध किया है:

क्र.	शेयरधारक(कों)	फोलियो	प्रमाण-पत्र	शेयरों की	शेयरों की
सं.	का नाम	संख्या	संख्या	विशिष्ट संख्या	संख्या
1.	मिथिलेश कुमार झा	0103772	6733	5630491-	1500
				5631990	
2.	राजीव कृष्णन	0040540	2532	2125001-	500
	,			2125500	

किसी व्यक्ति द्वारा उक्त शेयरों के संबंध में कोई दावा/उपरोक्त उल्लिखित शेयरधारक / दावेदार के पक्ष में डप्लिकेट प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में किसी भी आपत्ति के मामले में उसे / उन्हें इस सूचना के प्रकाशन तिथि के 15 दिन के भीतर अपने टावे या आपत्ति दर्ज करनी चाहिए। यदि इस सचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के भीतर, उक्त प्रमाण पत्र के संबंध में बैंक द्वारा कोई दावा प्राप्त नहीं किया जाता है तो डिप्लिकेट शेयर प्रमाण पत्र / पृष्टिकरण पत्र जारी किया जाएगा। सामान्य जन को उपर्युक्त प्रमाण पत्र के साथ किसी भी तरह के लेन—देन से सावधान किया जाता है।

दिनांकः 15.06.2022 स्थानः नई दिल्ली

कृते पंजाब नैशनल बैंक (एकता पसरीचा)

हार्डविन इंडिया लिमिटेड

सीआईएनः L74990DL2017PLC324826 पंजीकृत कार्यालयः बी-101, फेज-1, मायापुरी, नई दिल्ली 110064 ई—मेल: accounts1@hardwyn.com, वेबसाइट: www.hardwyn.com **दूरभाष संख्याः** +91-11-28115352

डाकीय मतपत्र सूचना

पनी के सदस्यों को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली 2014 गाथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 110 एवं अन्य लागूयांग्य प्रावधानां, यदि कोई हां, तथा भारतीय तिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 (सूचीकरण वेनियमावली) के विनियम 44, सामान्य बैठक (दि एसएस-2) पर साचिविक मानक-2 के अनुपालनानुसार, कंपनी उन सदस्यों को डाकीय मतपत्रों के साथ डाकीय मतपत्र सूचना का इलेक्ट्रॉनिक मेल के माध्यम से प्रेषप ं उन सदस्या का डाकाय मतपत्रा के साथ डाकाय मतपत्र सूचना का इलस्ट्रानक मल के माध्यम स्ट्राप्य उन्हें पूर्ण कर लिया है, जिन सदस्यों की ईमेल आईडी शुक्रवार 10 जून 2022 के उनुसार डिपॉजिटरी प्रतिमागियों 5 अभिलेखों में पंजीकृत हैं तथा अन्य सदस्यों (जिनकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं हैं) को एक पोस्टेज प्रिपेड वयं का पता लिखें बिजनेस रिप्लाई लिफाफा के साथ भौतिक माध्यम से प्रेषण कार्य पूर्ण कर लिया है, और ्सब उपक्रम इसलिए किया गया है ताकि निम्नलिखित विषयों के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा मतदा

फरन सा	करन साहत डाकाय नतपत्र द्वारा कंपना के अश्ववारकों का अनुनादन नाग जो सकः					
मद सं.	संकल्प(पॉ) का विवरण					
1	श्री रुबलजीत सिंह सयाल, कंपनी के प्रबंध निदेशक एवं सीएफओ को भुगतानयोग्य पारिश्रमिक में वृद्धि					
2	श्री स्वर्णजीत सिंह सयाल, कंपनी के कार्यकारी निदेशक को भुगतानयोग्य पारिश्रमिक में वृद्धि					
3	सुश्री शिखा चावला (डीआईएन 09523645) को एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करना					
4	सुश्री तान्या सयाल (डीआईएन 02821564) की कंपनी के निदेशक के रूप में पुनः नियुक्ति / नियमितीकरण					
5	कंपनी की प्राधिकृत अंश पूंजी में वृद्धि तथा कंपनी के संस्थान के ज्ञापन के पूंजी उपवाक्य में परिणामी संशोधन					

अपने सभी सदस्यों को ई-मतदान सुविधा उपलब्ध कराने के उददेश्य से सेंट्रल डिपॉजिव नक्योरिटीज लिमिटेड (सीडीएसएल) की सेवाएं ली हैं। सदस्यों से अनरोध किया जाता है कि वे यह ध्य व्या कि उत्तरिक (राजिएस) का सेवार्ड ला है। त्यरत्या से अनुसम्राक्या साता है कि व वह व्या वे कि डाकीय मतपत्र के माध्यम से मतदान का आरंभ शनिवार 18 जून 2022 को प्रातः 99.00 वजे होग या समापन रविवार 17 जुलाई 2022 को सार्थ 5.00 बजे होगा और इलेक्ट्रॉनिक विधि से मतदान का आरंग ानिवार 18 जून 2022 को प्रातः 09.00 बजे होगा तथा समापन रविवार 17 जुलाई 2022 को सायं 05.0

देशक मंडल ने एक समुचित एवं पारदर्शी प्रविधि के अंतर्गत डाकीय मतपत्र/ई–मतदान प्रक्रिया का संचाल रने के लिए जांचकर्ता के रूप में मैसर्स केएमपीएम एण्ड कंपनी, कंपनी सचिव को नियक्त किया है। सदस्थ रुप्त के तिशु जाबिकता के रूप में में स्वस्त किएमेग्राएम (एष्ड कपना, कपना साथिव को ानधुक्त किया है। स्वस्था है अनुसंध किया जाता है कि वे यह ध्यान रखें कि विधिवत वंदन से पूरी तरह सरे गए और हस्ताक्षरित डाकीय तपत्र प्रमुख्त करने पहुंच जाने चाहिए। तपत्र प्रमुख के स्वस्थाण कृपया यह ध्यान रखें कि उपर्युक्त संकरूप पर उपर्युक्त तिथि के उपरांत ई—मतदान (डाकीय तपत्र प्रमुख के माध्यम से किया गया मतदान वंदा नहीं माचा जाएगा। बोई सदस्य जो डाकीय मतपत्र प्रमुख प्राप्त नहीं करता है, वह या तो रजिस्ट्रार एवं कंपनी के अंश अंतरण

भिकर्ता / कंपनी को एक ईमेल प्रेषित कर सकता है अथवा आवेदन कर सकता है तथा एक अनुलिपि अर्थात डुप्लिकेट डाकीय मतपत्र प्रपत्न प्राप्त कर सकता है। डाकीय मतपत्र की सूचना कंपनी की वेबसाइट (अर्थात http://www.hardwyn.com/postal_ballot.pdf) पर भी प्रदर्शित की गई है। कीय मतपत्र द्वारा मतदान के परिणाम की घोषणा मंगलवार 19 जुलाई 2022 को अथवा इससे पर्व कंपर

पंजीकृत कार्यालय में की जाएगी। परिणाम का प्रदर्शन पंजीकृत कार्यालय तथा कंपनी की वेबसाइट प क्या जाएगा और इनके बारे में उस स्टॉक एक्सचेंज को संसूचित किया जाएगा जिस पर कंपनी के अंब

िर आपको ई—मतदान के संबंध में कोई पूछताछ करनी है या आपकी कोई शिकायत है तो अंशधारकों सं नुरोध किया जाता है कि वे स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को डी—153ए, प्रथम तल खिला औद्योगिक क्षेत्र, फेज— ।, नई दिल्ली—110020, ई—मेलः info@skylinerta.com पर संपर्क करें। निदेशक मंडल के आदेश द्वा

हस्ता./ रुबलजीत सिंह सया **डीआईएन: 0028062**

कार्यालय वसूली अधिकारी—। / ॥ ऋण वसूली ट्रिब्यूनल देहरादून पारस टॉवर, द्वितीय तल, माजरा, निरंजनपुर, सहारनपुर रोड, देहरादून

द्वितीय अनुसूची के नियम 48 के तहत अचल सम्पत्ति की कुर्की का वारंट आयकर अधिनियम, 1961 को ऋणों की वसूली और दिवालियापन अधिनियम, 1993 के साथ पढ़ा गया। आरसी/79/2019

पंजाब नेशनल बैंक बनाम मैसर्स केबीजी एक्सपोर्ट्स प्राoलिo सी.डी.1: मैसर्स केबीजी एक्सपोर्ट्स प्रा0लि0 कार्यालय प्लॉट नं0 19, शिव गंगा इंडस्ट्रीयल स्टेट्स, ग्राम लुकेशवरी, पोस्ट ऑफिस सिकन्दरपुर, रूड़की, जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड द्वितीय पताः बी-207, एनसीआर रेजीडेंसी, सेन्ट ज्यूड्स स्कूल के सामने, जीएमएस रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड, तृतीय पताः 1/1876 मानसरीवर पार्क, शाहदरा, दिल्ली—110032

सी.डी.2. रिव गोयल निर्देशक मैसर्स केबीजी एक्सपोर्ट्स प्रा.लि. पुत्र श्री कुलभूषण गोयल, निवासः गली नं0 1, चमन विहार, निरंजनपुर, देहरादून, उत्तराखण्ड? सी.डी.३: रेखा रोयल निदेशक मैसर्स केबीजी एक्सपोर्ट्स प्रा.लि. पत्नी श्री कुलभूषण गोयल निवासीः गली नं0 4, चमन विहार, निरंजनपुर, देहरादून, उत्तराखण्ड

जबिक (सी.डी.) रुपये की राशि का भूगतान करने में विफल रहे हैं। 25741445.3400 (रुपये दो करोड़ सत्तावन लाख **एकताली**स हजार चार सौ पैंतालीस और पैसे चौंतीस मात्र) पेंडेंटलाइट और भविष्य के ब्याज @ 12.00% साधारण ब्याज के साथ त्रैमासिक से प्रभावी। 27-06-2016 रुपये की वसूली और तटों तक। 231000 (रुपये दो लाख इकतीस हजार मात्र) पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली न्यायाधिकरण देहरादून द्वारा तैयार प्रमाण पत्र संख्या आरसी / 79 / 2019 के संबंध में आपके द्वारा देय।

जबिक (सी.डी.) को पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली न्यायाधिकरण, देहरादून द्वारा आदेश दिया गया था, जिन्होंने प्रमाण पत्र धारक बैंक / वित्तीय संस्था को भुगतान करने के लिए दिनांक 14-02-2019 को टीए / 152 / 2018 में वसूली प्रमाणपत्र जारी किया था, **25741445.3400** (रुपये दो करोड़ सत्तावन लाख इकतालीस हजार चार सौ पैंतालीस और पैसे चौंतीस मात्र) पेंडेंटलाइट और भविष्य के ब्याज @ 12.00% साधारण ब्याज के साथ त्रैमासिक दिनांक 27.06.2016 तक रुपये की वसूली और लागत। 231000 (रुपये दो लाख इकतीस हजार **मात्र)**, और जबकि उक्त का भुगतान नहीं किया गया है।

2. यह आदेश दिया जाता है कि आप नीचे उल्लिखित संपत्ति को किसी भी तरह से अधोहस्ताक्षरी के <mark>अग्रहस्ताक्षरित</mark> करने या चार्ज करने के अगले आदेश तक, जैसा कि निर्धारित किया गया है, प्रमाणपत्र देनदार को इसके द्वारा निषिद्ध और प्रतिबंधित किया जाता है, और यह कि सभी व्यक्तियों को ऐसा करने से प्रतिबंधित किया जाता है इस तरह के हस्तांतरण या शल्क के तहत कोई लाभ।

 आपको वसूली अधिकारी, ऋण वसूली न्यायाधिकरण, देहरादून के समक्ष 27 / 06 / 2022 को पूर्वाह्न 10.30 बजे उपस्थित होना आवश्यक है। बिक्री की उद्घोषणा की शर्तों को तय करने के लिए तय की जाने वाली तारीख का नोटिस लेना।

संपत्ति का विवरणरू संपत्ति असर खाता संख्या 00402, खसरा संख्या 111 केए और 112 केए गां में स्थित 0.1210 हेक्टेयर, परगना भगवानपुर, तहसील भगवानपुर, जिला हरिद्वार ।

दिनांक जून, 2022 के दिन अधिकरण की मुहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी।

रजिस्ट्रार, ऋण वसूली ट्रिब्युनल, देहरादून

ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून भारत सरकार, वित्त मंत्रातय, वित्तीय सेवाएं विभाग द्वितीय तल, पारस टॉवर, माजरा सहारनपुर रोड, देहरादून, उत प्रकाशन नोटिस ओ०ए० संख्या 425/2019

ऋण वसूली एवं दिवालियापन अधिनियम, 1983 के सेवशन 19 के सब-सेवशन (4) सपठित उप नियम (2ए) के नियम 5 समय—समय पर संशोधित ऋण वसूली ट्रिब्यूनल (प्रोसीजर) नियम 1983 के अधीन उपस्थित होने की सूचना

डायरी संख्या 609 पंजाब नेशनल बैंक बनाम मैसर्स राज एन्टरप्राइजेज एवं अन्य

- सेवा में, 1. मैसर्स राज एन्टरप्राइजेज, प्रो0 इरसार, मौ0 परवेज व सतीश राज, प्रथम पताः द्वारा जितन्द्र गिल खसरा नं0 220, ग्राम छाबरा, लंगा रोड, सहसपुर, द्वितीय पताः एसबीआई सेलेकी के पीछे, देहरादून
- इरसार पुत्र इरशाद, पार्टेनर मैसर्स राज **एन्टरप्राइजे**ज निवासी पडाई गुजर, हरिद्वार उत्तराखण्ड 247666 मौ० परवेज पुत्र अनवार अली, पार्टनर राज एन्टरप्राइजेज, निवासी 132बी, दौदपुर
- गोविन्दपुर, बहादराबाद, हरिद्वार, उत्तराखण्ड
- सतीश राज, पुत्र ज्ञान सिंह निवासी लक्ष्मीपुर चंचक, सहसपुर, देहरादून उत्तराखण्ड 248197
- ज्ञान सिंह पुत्र राम सिंह निवासी लक्ष्मीपुर चंचक, सहसपुर, देहरादून **उत्तराखण्ड 248197** ?
- इशरत पत्नी परवेज निवासी 132/8 दादपुर, गोविन्दपुर, हरिद्वार मौo आसि फू पुत्र नसीम अहमद, म0नंo 287/8 लाला वाली गली, पुरानी तहसील
- रूड़की, हरिद्वार, उत्तराखण्ड हसनेन पुत्र इश्हाक, ग्राम नरा, पोस्ट मंसूरपुर, तहसील व जिला मुजफ्फरनगर

जहाँ कि उपरोक्त वर्णित आवेदक बैंक ने आपके विरुद्ध रू. 32,53,950 / - की वसूली हे **ओ0ए0 सं0 425 / 2019** संस्थित किया है, जिसमें कि माननीय न्यायाधिकरण ने ऋण वसूली एव दिवालियापन अधिनियम, 1993 की धारा 19(4) के सम्मन / नोटिस जारी किया था जो कि माननीय पीठासीन अधिकारी के समक्ष 26.05.2022 को सूचीबद्ध किया गया था।

यह कि, माननीय ट्रिब्यूनल इस बात से सन्तुष्ट है कि सामान्य तरीके से मांग नोटिस जारी किया जाना संभव नहीं है, इसलिए इस प्रकाशन के जरिये दी जा रही सूचना के द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि आप दि० 04.08.2022 को अथवा इससे पूर्व आप स्वयं व्यक्तिगत रुप से अथवा अपने अधिकृत एजेण्ट या लीगल प्रैक्टिशनर के माध्यम से माननीय ट्रिब्यूनल में उपस्थित हों । इसके अलावा, ऑपको यह दिखाने की आवश्यकता है कि ओ०ए० में दी गई राहत की अनुमित क्यों नहीं दी जानी चाहिए और सेट में पेपर बुक फॉर्म में अपने बचाव में और यदि कोई हो, तो सभी दस्तावेजों और शपथ पत्रों के तहत अपने बचाव में दायर करें। व्यक्तिगत रूप से या इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर, इस ट्रिब्यूनल में व्यक्तिगत रूप से या आपके विधिवत अधिकृत एजेंट या कानूनी व्यवसायी के माध्यम से सेंट अप, काउंटर क्लेम के लिए आपका बचाव या दावा प्रस्तुत करें।

सूचित हों कि निर्धारित दिवस एवं समय पर ट्रिब्यूनल में आपकी उपस्थिति की चूक की दशा में इस प्रकरण पर सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपरिश्वित में किया जायेगा। दिनांक 10 जून, 2022 के दिन अधिकरण की मुहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी।

ट्रिब्युनल के आदेशानुसा

रजिस्ट्रार, ऋण वसूली ट्रिब्युनल, देहरादून

केनरा बैंक Canara Bank 📣

विक्रय सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल सम्पत्तियों के विक्रयार्थ ई-नीलामी विक्रय सूचना एतद्द्वारा जनसाधारण को तथा विशेष रूप में ऋणकर्ता(ओं) और गारंटर(रों) को सचित किया जाता है कि प्रतिभूत ऋणदाता के पास बंधककृत/प्रभारित निम्न विवरणित अचल संपत्ति, जिसका भौतिक आधिपत्य केनरा बैंक के तनावग्रस्त परिसम्पत्ति प्रबंध शाखा (एसएएम), सी-34, तृतीय तल, डीडीए तल, डीडीए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मूलचंद चिकित्सालय के सम्मुख, नई दिल्ली-110024) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है की मै. तेन्तीवाल वायर प्रॉडक्ट्स लि. (वर्तमान में तेन्तीवाल मेटल्स प्रॉडक्ट्स लि.) पंजी. कार्या. एच. नं. 45, जगन्नाथपुरी, जन्मभूमि मथुरा, उत्तर प्रदेश 281003, गारंटरों: श्री राधापद तेन्तीवाल, श्रीमती कुमकुम तेन्तीवाल, श्री नीलेश तेन्तीवाल से मै. तेन्तीवाल वायर प्रॉडक्ट्स लि. (वर्तमान में तेन्तीवाल मेटल्स प्रॉडक्ट्स लि.) से केनरा बैंक की एसएएम शाखा, सी-34, तृतीय तल, डीडीए तल, डीडीए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मूलचंद चिकित्सालय के सम्मुख, नई दिल्ली-110024 के बकाये 31.12.2019 को रु. 44,26,14,919.26 (रु. चौआलिस करोड़ छब्बीस लाख चौदह हजार नौ सौ उन्नीस एवं पैसे छब्बीस मात्र) तथा देय ब्याज एवं लागतों की वसूली के लिये 18.7.2022 को ''जैसा है जहां है'', ''जो भी जैसा है'' तथा ''जो कुछ भी वहां है'' आधार पर बिक्री की जाएगी।

बोली के समय में जमा की जाने वाली आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि के साथ अचल सम्पत्तियों का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है (बैंक की जानकारी में उक्त सम्पत्ति पर कोई अधिभार नहीं है।)

क्रम सं.	सम्पत्ति का पता	आरक्षित मूल्य (लाखों में)	ईएमडी (लाखों में)
1.	मैं. तेन्तीवाल वायर प्रॉडक्ट्स लि. के नाम में खसरा नं. 387, खाता नं. 61, मौजा-कोटा, तहसील एवं जिला मथुरा, क्षेत्रफल 6010 वर्ग मी. में स्थित फैक्ट्री भूमि एवं भवन। चौहद्दीः पूर्वः अन्य भूमि (श्याम अहेरिया), पश्चिमः कृषि भूमि उत्तरः रोड एवं सम्पत्ति का गेट, दक्षिणः अन्य सम्पत्ति	208.00	20.80
2.	श्रीमती कुमकुम तेन्तीवाल के नाम में खसरा नं. 246, चाक नं. 3, मौजा जयसिंहपुरा बांगर, तहसील एवं जिला मथुरा, एरिया 4860 वर्ग मी. में स्थित फैक्ट्री भूमि एवं भवन। चौहदीः पूर्वः 10' सर्विस लेन, पश्चिमः रोड, उत्तरः अन्य सम्पत्ति, दक्षिणः छेदी बोहरे की सम्पत्ति।	740.00	74.00

संपत्ति का अवलोकन प्राधिकृत अधिकारी से पूर्व नियुक्ति लेकर 12.7.2022 को किया जा सकता है।

विक्रय के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए कृपया केनरा बैंक की वेबसाइट (https://www.canarabank.com) और सेवा प्रदाता की वेबसाइट https://indianbankseauction.com पर उपलब्ध लिंक ''ई-नीलामी'' का संदर्भ ग्रहण करें अथवा मुख्य प्रबंधक, केनरा बैंक की एसएएम शाखा, सी-34, तृतीय तल, डीडीए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मुलचंद चिकित्सालय के सम्मुख, नई दिल्ली-110024, मो.नं. 8427689047, 9653220988, 8950109036 से किसी भी कार्यदिवस पर कार्यालय समय के दौरान पर संपर्क कर सकते हैं। प्राधिकृत अधिकारी

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रतिभूतिकरण अधिनियम, 2002 की Central Bank of India

मांग सूचना 13(2)

शाखा कार्यालयः साउथ एक्सर्टेशन, पार्ट-2, नई दिल्ली-110049

यह मांग सूचना वित्तीय परिसम्पत्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के अंतर्गत एतद्द्वारों कर्जदारों / गारंटरों को उनकी गांरटी में दी गई ऋण सुविधा की बकाया राशि का भुगतान इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर करने के लिए जारी की गई है। यदि आप अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत इस सूचना के संदर्भ में नीचे वर्णित राशि और उस पर आगे ब्याज और प्रासंगिक व्यय, लागत आदि का भुगतान करने में असफल रहते हैं तो बैंक कथित अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) और अन्य लागू प्रावधान के अंतर्गत उसे प्राप्त सभी या किसी अधिकार का प्रयोग करेगा। आपको यह भी सूचना दी जाती है कि आप बिना बैंक की लिखित अनुमति लिये इस सूचना में नीचे वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री, पट्टे पर देने या अन्य लेनदेन नहीं कर सकते है। बकाया राशि के साथ खाता और प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का विवरण नीचे दिया गया है:

अचल सम्पत्ति की अनुसूची एवं अन्य विवरण

कर्जदार/गारंटर का नाम	प्रतिभूत परिसम्पत्ति का विवरण	13(2) सूचना की तिथि एवं राधि
गारंटरः श्री कपिल बंसल पुत्र श्री कृष्ण कुमार बंसल 379, हवेली हैदर कुली, चांदनी चौक, दिल्ली—110006 ऋण खाता संख्या— 3034385412	संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश— जो संपत्ति भूखंड संख्या टी—138—138, प्रथम तल, टी ब्लॉक एक्सटेंशन, ग्राम बिंदापुर कॉलोनी में स्थित है, जो खसरा संख्या 351 में से है और अब उत्तम नगर, नई दिल्ली—110059 के रूप में अभिज्ञात है।	27.05.2022 के अनुसार (जो कि इस सूचना

आपका ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुस्र 13 के उप-अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की और आकर्षित किया जाता है।

दिनांकः 16/06/2022 प्राधिकृत अधिकारी स्थानः दिल्ली सेन्द्रल बैंक ऑफ इंडिया, साउथ एक्सटेंशन पार्ट-2, नई दिल्ली

ixigo

ले ट्रैवेन्यूज़ टेक्नोलॉजी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः दूसरी मंज़िल, वेरिटास बिल्डिंग, सेक्टर - 53, गोला कोर्स रोड, गुरुग्रम - 122002, हरियाणा, भारत। CIN: U63000HR2006PLC071540: दूरभाष: +91 - 124 - 6682111. ईमेल: <u>secretarial@ixigo.com</u> वेवसाइट: <u>www.ixigo.com</u>

सोलहवीं वार्षिक आम बैठक और रिमोट ई-वोटिंग की सूचना

हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि 'ले ट्रेकेन्ट्रल टेक्नोलीजी लिपिटेड ("कंकमी") की सोलहरी वार्किक आम बैठक ("AGM") गुरुवार, 07 जुलाई, 2022 को सुबह 11:00 बजे (IST) वीडियो कॉन्फ्रेसिंग ("VC") / अन्य ऑडियो-विजुआत माध्यमी ("OAVM") द्वारा कंकमी अधिनिचन, 2013 और उसके तहत कुवाये गये निचनों के लागू प्रावागर्थों, सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपय संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपय संख्या 20/2020 दिनांक 05 मई, 2020 और सम्मन्य परिचत्र संख्या 02/ 2022 रिनांक 05 मई, 2022 (सामूहिक रूप से "MCA परिचत") का अनुपालन करते हुए, AGM की सूचना में निर्धारित किये जाने वाले व्यवसायों को करने के लिए आयोजित की जायेगी।

उन सभी सदस्यों को भेज दिया गया है जिनके ईनेल पुट्टेस कंचनी के रजिस्ट्रार और सेयर ट्रांसफ़र एजेंट, लिक इनटाइम इंडिया प्रार्टेट जिम्प्टेंड ("LIIPL") / डिपॉजिटरी पार्टिसिनेंट के साथ पंजीवृत्त हैं। वार्षिक रिनोर्ट के साथ यह नोटेस, कंचनी की डेबसाइट www.ixigo.com और लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिगिटेड की वेबसाइट https://instavote.linkintime.co.in/ पर भी

उपरोक्त MCA परिपत्रों के अनुसार, विसीध वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ AGM नेटिस 15 जून, 2022 को ईमेल द्वारा

सभी सदस्य LIIPL द्वारा प्रदान की गयी VC / OAVM सुविधा inStaMEET के नाष्यम से AGM ने समितित हो सर्वेगो स्वरस इसे https://instameet.linkintime.co.in पर एक्सेस कर सकते हैं। सदस्य गोटिस में आतमी गयी प्रक्रिया का पारान करते हुए AGM शुरू होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले VC / OAVM गोड से AGM में समितित हो सकते हैं। VC / OAVM के मध्यम से ÁGM में सम्मिलित होने वाले सदस्यों की उजस्थिति को कंपनी अधिनियम, 2013 की धरा 103 के तहत कोरम की गणना के उद्देख से तंक्की अधिनियम, 2013 की चारा 108, तंत्की (क्रांचन और प्रशासन) नियम, 2014 (संशोधित) के नियम 20 और MCA परिचर्त के

अनुपालन में, कंपनी AGM के दौरान व्यवसाय के संबंध में, अपने सदस्यों को रिजेट ई-वॉटिंग और ई-वॉटिंग की सूविधा प्रदान कर रही हैं। इस प्रयोजन के लिए क्वानी के द्वारा LIIPL के नाध्यम से रिमोट ई-वॉटिंग और AGM के दौरान ई-वॉटिंग की आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराई गयी है। संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

 जिस सदस्य का नाम कट-ऑफ़ लियि थानी गुरुवार, 30 जून, 2022 को कियोजिटचे द्वारा बनाये गये सदस्यों / लामार्थी सदस्यों के रजिस्टर में शामिल होगा, केवल वे सदस्य ही रिजोट ई-बोटिंग और ई-बोटिंग के लिए पोप्प माने जायेंगे। जिन सदस्यों का नाम, कट-ऑफ़ तिथि अर्थात गुरुवार, 30 जून, 2022 को रजिस्टर में बामिल ना हो, वे ईस नोटिस को स्टिक एक सूचना के तौर पर से सकते हैं।

b) रिमोट ई-वोर्टिंग की मुविधा सोमवार, 04 जुलाई, 2022 को सुबह 09:00 बजे (IST) शुरू होगी और बुधवार, 06 जुलाई, 2022 को शाम 05:00 बजे (IST) समाप्त होगी। रिमोट ई-वोर्टिंग करे उक्त अवधि के बाद LIIPL द्वारा निर्वाच्य कर दिया जायेगा।

तक बंद रहेंगे। d) AGM में सम्मितित होने वाले वे सदस्य जिन्हें बोट देने वर अधिकार है लेकिन जिन्होंनें रिमोट ई-बोरिंग द्वारा बोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग नहीं किया है, वे AGM के दौरान ई-वोटिंग द्वारा नोटिस में दिए गए सभी व्यवसायों के लिए वोट कर सकते हैं। वे सदस्य

किन्होंने रिमोट ई-वेटिंग द्वारा वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग कर लिया है, वे AGM में शामिल हो सकते हैं लेकिन वे वोट नहीं

ा कंपनी के सदस्यों के राजिस्टर और शेपर ट्रांस्कर बुक्स बुकवार, 01 जुलाई, 2022 से गुरुवार, 07 जुलाई, 2022 (दोनी दिन शामिल)

e) कंपनी के वे सम्पी सदस्य जिनके पास शेवर्श फिलिकल फ़ॉर्म में उपलब्ध हैं या जिन्होंने कंपनी/डिपॉलिटरी के साथ अपना ईमेल एड्रेस पंजीकृत नहीं किया है अथवा कंपनी के सेपरों का अधिवहण करने वाले किसी भी व्यक्ति और कंपनी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से नोटेंस भेजे जाने के बाद कंपनी के सदस्य बनने वाले व्यक्ति जिनके पास कर-ऑफ़ विधि अर्थात गुरुवार, 30 जून, 2022 घर रोवर हैं, वे enotices@linkintime.co.in पर रिक्केट भेजकर पूजर आईडी और पासवर्ड झाव कर सकते हैं। हालाँकि, अगर कोई सदस्य पहले से हो रिमोट ई-वोटिंग के लिए LIIPL के साथ पंजीकृत है तो वे वोटिंग और ई-वोटिंग के लिए मीजूदा पूजर आईडी और पासवर्ड

का उपयोग कर सकते है। AGM के दौरान ई-वोरिंग और रिनोट ई-वोरिंग से संबंधित विस्तृत प्रक्रिया AGM के नोटिंस में दी गयी है।

g) AGM के दौरान रिनोट ई-चोटिंग और ई-चोटिंग से संबंधित किसी भी शिकरवत की स्थिति में, सदस्य भी राणीय रंगन, सहायक उपाध्यक्ष - इसेटिंग, LIPL, सी-101, पहली मॅजिल, 247 पार्क, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, विकोत्ती (पश्चिम), गुंबई - 400083; हेल्पडेक्त: 022 49186000/49186175; enotices@linkintime.co.in

डीमैटीनियलाइएड मोड में शेयर रखने वाले सदस्य अपने संबंधित डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट से संपर्क करके अपना इंनेल एड्रेस पंजीवृज/अपनेट करवा सकते हैं। पिर्ज़िकल मोड में बेधर रखने वाले सदस्य अपने ईमेल एड्रेस को <u>enotices@linkintime.co.in</u> पर RTA के साथ रजिस्टर/अपडेट कर सकते हैं। सदस्यों से अनुरोध है कि वे नाग, फ्रोलियों नंबर, प्रमाणपत्र संख्या, पैन, बोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी आदि वैसे विवरण प्रदान करें।

सदस्यों से अनुरोध है कि AGM की नोटिस में निर्धारित VC / CAVM द्वारा AGM में शामिल होने के निर्देश, रिमोट ई-वॉटिंग और AGM के दौरान ई-वॉटिंग द्वारा चोट खलने के तरीके और वत्त्र के तीर पर पंजीकरण से संबंधित सभी नोट प्यान से पड़ें।

दिनांक: 15 जून, 2022 स्थान: मुंबई







एसदी/-सुरेश कुमार भूटानी (युष जनस्त्र कार्यसिल एवं कंपनी सचिव) सदस्यता क्रमांक F6400

से देवेन्यूज़ टेक्नोसॉजी सिमिटेड के सिए